

तुरंत रिलीज के लिए

### **ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट, इस गर्मी नई जगह पर लगेगी**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (28 मई, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की फार्मर्स मार्किट (Farmers' Market), 2021 के सीजन के लिए, 19 जून को डाउनटाउन की एक नई जगह पर लगेगी।

मार्किट सीजन के दौरान डाउनटाउन के पुनर्विकास की संभावना में, मार्किट की जगह को बदलकर इसे, केन विलियन्स सक्वेयर (Ken Whillans Square), वेलिंग्टन स्ट्रीट वेस्ट (Wellington Street West) और गेज पार्क (Gage Park) में लगाया जा रहा है। मार्किट, 23 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार, सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक जारी रहेगी, चाहे बारिश हो या धूप। आपके कई पसंदीदा किसान और लोकल शिल्पकार, ताज़े सीजनल फलों और सब्जियों; तैयार भोजन तथा हाथ से बने बेजोड़ सामान के साथ वापस आएंगे!

### **कोविड-19 से स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपाय**

सिटी का स्टाफ यह सुनिश्चित करेगा कि मार्किट, प्रोविंसियल और रीजन ऑफ पील पब्लिक हेल्थ (Region of Peel Public Health) के कोविड-19 (COVID-19) संबंधी निर्देशों और गाइडलाइन्स के मुताबिक चल रही है। मार्किट के सारे विक्रेताओं और खरीदारों के लिए चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। सामाजिक दूरी और लोगों की अधिकतम संख्या भी लागू की जाएगी।

### **मार्किट पहुंचना**

मार्किट अभी भी, ब्रैम्पटन के डाउनटाउन क्षेत्र के केंद्र में ही स्थित है और यहां ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के द्वारा या साइकिल पर पहुंचा जा सकता है। जो लोग अपना वाहन लेकर मार्किट आएंगे, उनके लिए ब्रैम्पटन सिटी हॉल (Brampton City Hall) में मुफ्त पार्किंग उपलब्ध है।

### **प्रायोजक**

2021 के लिए ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट, मेरिडियन क्रेडिट यूनियन (Meridian Credit Union) के द्वारा पेश की जा रही है। ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट के कॉर्पोरेट प्रायोजक (स्पांसर) हैं: अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University), ऑलस्टेट (Allstate) और स्पिरिट ऑफ मैथ ब्रैम्पटन (Spirit of Math Brampton)।

इस वर्ष की मार्किट के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/markets](http://www.brampton.ca/markets) पर जाएं।

**हवाले**

“ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट में जाना, परिवारों के लिए 1986 से एक परंपरा है। मुझे भी हर शनिवार वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यह एक नई जगह पर है, फिर भी यह हमारे कई पसंदीदा किसानों और शिल्पकारों वाली, पहले जैसी ही शानदार मार्किट होगी! मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि वे हमारी मार्किट में जाएं और लोकल विक्रेताओं को सहयोग करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जैसे कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कोविड-19 महामारी से बहाली की ओर बढ़ रही है, ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट, निवासियों और आगंतुकों के लिए, एक लोकल टूरिस्ट आकर्षण और लोकल विक्रेताओं को सहयोग करने का अवसर पेश करती है।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कापोरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन फार्मर्स मार्किट को एक नई जगह पर लगाने से सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, डाउनटाउन क्षेत्र में पुनर्विकास में मदद के लिए रिपेयर के काम को आगे बढ़ा पाएगी, जिससे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट मजबूत बनेगा; अल्गोमा यूनिवर्सिटी को अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने में मदद मिलेगी; और, हुरोन्टैरियो लाइट रेल ट्रांज़िट (एल.आर.टी.) प्रोजेक्ट को सहयोग मिलेगा।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)